

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II--Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 1979/माघ 16, 1900
No. 65] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 1979/MAGHA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1979

का. आ. 72 (अ).—मं०, एम. रामचन्द्रन, प्रशासक, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम,
1968 (1968 का 45) की धारा 29, 40 और धारा 115 की उप-धारा (1) के साथ पठित
धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(क) प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यवहारी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई
घरतु, विनिर्मित करने या किसी प्रमाणित स्वर्णकार से विनिर्मित कराने के लिए
प्राधिकृत करता हूँ, अर्थात्,—

(1) ऐसी वस्तु का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा, और

(2) उसका वंश के भीतर विक्रय, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक से विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना, नहीं किया जाएगा ,

(ख) प्रत्येक प्रमाणित स्वर्णकार को ऐसे अनुज्ञाप्य व्यवहारी की ओर से ऐसी वस्तु का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

[सं. 2/79 फा. सं. 143/9/78जी सी 2]

मा. रामचन्द्रन, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1979

S.O. 72(E).—In exercise of the powers conferred by section 11, read with section 29, 40 and sub-section (1) of section 115 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. Ramachandran, Administrator, hereby authorise—

(a) every licenced dealer to manufacture or to get manufactured from a certified goldsmith an article subject to the following conditions, namely :—

(i) such article shall be exported out of India: and

(ii) it shall be sold within the country without the specific authorisation from the Gold Control Administrator ;

(b) every certified goldsmith to manufacture on and behalf of such licenced dealer such article.

[No. 2/79/F. No. 143/9/78-GC. II]

M. RAMACHANDRAN, Gold Control Administrator